



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2232]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2016/भाद्र 23, 1938

No. 2232]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2016/BHADRA 23, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2016

का.आ. 2932(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2913 (अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के 0.000 कि.मी. से 28.000 कि.मी. और 0.000 कि.मी. से 11.593 कि.मी तक तुलजापुर बाइपास के भूखण्ड (तुलजापुर-औसा सेक्शन) के निर्माण (कटोर पेवमेंट के साथ चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18 नवम्बर, 2015 को "टाइम्स ऑफ इण्डिया" और "दैनिक लोकमत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 361 के 0.000 कि.मी. से 28.000 कि.मी और 0.000 कि.मी. से 11.593 कि.मी. तक तुलजापुर बाइपास (तुलजापुर दृ औसा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				3 क में प्रकाशन के अनुसार	जे एम और आर/आर के अनुसार				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	उस्मानाबाद	तुळजापूर	तडवळा	80	80 पै	निजी	कृषि	0.1900	बजरंग ज्ञानेश्वर ठाकुर
					80 पै	निजी	कृषि	0.0600	घनश्याम त्रिंबकराव निंबाळकर
					80 पै	निजी	कृषि	0.1704	1.विशाल रमेश वडणे 2.हीराबाई नवनाथ सूर्यवंशी
				79	79 पै	निजी	कृषि	0.0900	चंद्रकांत आनंदराव कणे
					79 पै	निजी	कृषि	0.1900	लिंबाबाई उर्फ गुणमाला सुभाषराव विभूते
					79 पै	निजी	कृषि	0.2000	योगेश हरीदास पवार
					79 पै	निजी	कृषि	0.0998	प्रविण सुभाषराव रोचकरी
					79 पै	सरकारी	शुष्क	0.0400	सरकारी नाला
					79 पै	निजी	कृषि	0.2000	केशरबाई अशोक कंदले
					79 पै	निजी	कृषि	0.1900	मेहमुद मोहीमोददीन शेख
				76	76 पै	निजी	कृषि	0.0578	1.किरण मारुतीराव क्षिरसागर 2.सुरज मारुतीराव क्षिरसागर
				77	77 पै	निजी	कृषि	0.2376	जगतसिंगजी लोकमानसिंग ठाकुर
					77 पै	निजी	कृषि	0.0100	1. किरण मारुतीराव क्षिरसागर 2. सुरज मारुतीराव क्षिरसागर
				78	78 पै	निजी	कृषि	0.0300	1 देविदास रामभाऊ क्षिरसागर 2 दत्तु महादेव मस्के 3 सुरज मारुतीराव क्षिरसागर 4 किरण मारुतीराव क्षिरसागर
				72	72 पै	निजी	कृषि	0.0200	जगतसिंगजी लोकमानसिंग ठाकुर
					72 पै	सरकारी	शुष्क	0.0200	सरकारी नाला
					72 पै	निजी	कृषि	0.0054	जयप्रकाश माणिकराव गायकवाड
				71	71 पै	निजी	कृषि	0.0305	भालचंद्र विश्वनाथप्पा माणकरी
				75	75 पै	निजी	कृषि	0.2800	जगतसिंगजी लोकमानसिंग ठाकुर
				74	74 पै	निजी	कृषि	0.2689	संदीप सुभाष कदम
					69	69 पै	निजी	कृषि	0.1500
				68	69 पै	निजी	कृषि	0.2500	आनंद चंद्रकांत सनस
					68 पै	निजी	कृषि	0.0700	1. नवनाथ गंगाराम मस्के 2.जनाबाई श्रीमंत मस्के 3.सिता लिंबा भंडारे 4.मंगल संदीपान कांबळे 5.खंडू श्रीमंत मस्के 6.वैशाली दिलीप चंदनशिवे 7.अनिता नारायण कांबळे
					68 पै	निजी	कृषि	0.1400	आनंद चंद्रकांत सनस
70	70 पै	निजी	कृषि	0.0253	आनंद चंद्रकांत सनस				
67	67 पै	निजी	कृषि	0.2600	1.भानुदास निवृत्ती पवार 2.सौ. लोचना दशरथ माळी 3.मंगल मनोज कदम				

				108	108 पै	निजी	कृषि	0.3108	1. गोरख गोविंद बेले 2. वैजीनाथ गोविंद बेले 3. नवनाथ गोविंद बेले 4. भैरवनाथ गोविंद बेले
				110	110 पै	निजी	कृषि	0.0500	अविनाश शहाजी धुमाळ
					110 पै	निजी	कृषि	0.5417	बाळु लिंगप्पा चंदनशिवे
					110 पै	निजी	कृषि	0.0200	दिपक लिंगप्पा चंदनशिवे
				111	111 पै	निजी	कृषि	0.7000	विश्वनाथ दाजीबा व्यवहारे
				2	2 पै	निजी	कृषि	0.4900	1. जिजाबाई रावसाहेब गुंड 2. शंकर रावसाहेब गुंड
				सडक	सडक	सरकारी	शुष्क	0.0500	सडक
							उपकुल	9.7746	
2.	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	करजखेडा	517	517 पै	निजी	कृषि	0.0300	विलास शामराव माने
				518	518 पै	निजी	कृषि	0.1300	राजेंद्र बाबू गोडसे
				519	519 पै	निजी	कृषि	0.3200	महादेव शामराव निलंगे
				520	520 पै	निजी	कृषि	0.3400	बळू बापू ताकमोगे
				521	521 पै	निजी	कृषि	0.3200	राजेंद्र दत्तू चव्हाण
				522	522 पै	निजी	कृषि	0.0484	दादा शंकर सोनटक्के
					522 पै	निजी	कृषि	0.0200	शेमिन मैनोददीन शेख
					522 पै	निजी	कृषि	0.0300	श्रीनिवास महादेव पवार
				523	523 पै	निजी	कृषि	0.0600	विजयाबाई सुधाकर ताकमोगे
					523 पै	निजी	कृषि	0.0700	इंद्रजित लक्ष्मण साळुंके
					523 पै	सरकारी	शुष्क	0.0300	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन
				523 पै	निजी	कृषि	0.3200	नुरमहंमद अल्लाबक्ष शेख	
				524	524 पै	निजी	कृषि	0.5000	रुबाबबी अल्लाबक्ष शेख
				525	525 पै	निजी	कृषि	0.3000	बन्सीलाल जयवंत कोळी
					525 पै	निजी	कृषि	0.0300	लक्ष्मण चंद्रप्पा बोंदगे
				538	538 पै	निजी	कृषि	0.3000	महेश हरिदास पवार
					538 पै	निजी	कृषि	0.0400	जयदेवी अनिल उंबरे
					538 पै	निजी	कृषि	0.1200	गणपती साधू राजगुरू
					538 पै	निजी	कृषि	0.0500	हरीदास केशवराव पवार
					538 पै	निजी	कृषि	0.0700	विठठल निवृत्ती बागल
					538 पै	निजी	कृषि	0.0200	शामलबाई इंद्रजित पाटील
					538 पै	निजी	कृषि	0.2200	नबीलाल महंमद सय्यद
					538 पै	निजी	कृषि	0.0100	देवेंद्र नागेश पैलवान
					538 पै	निजी	कृषि	0.0700	दुर्गादास केशवराव पवार
					538 पै	निजी	कृषि	0.0100	प्रताप प्रभाकर देवकर
					538 पै	सरकारी	शुष्क	0.0700	सडक
				537	537 पै	निजी	कृषि	0.0100	संजय बलीराम गायकवाड
					सडक	सरकारी	शुष्क	0.0900	सडक
					537 पै	निजी	कृषि	0.0800	राजाभाऊ ऊर्फ विठठल हणमंत पाटील
				537 पै	निजी	कृषि	0.0300	खुली जगह	
				541	541 पै	निजी	कृषि	0.2800	बलभिम रामराव जाधव
				542	542 पै	निजी	कृषि	0.0223	अनूसयाबाई किसनराव माळी

				543	543 पै	निजी	कृषि	0.2100	बलभिम रामराव जाधव
				543 पै	निजी	कृषि	0.1500	मल्लीकार्जुन करबसप्पा तोडकरी	
				544	544 पै	निजी	कृषि	0.0600	अनूसयाबाई किसनराव माळी
				545	545 पै	निजी	कृषि	0.1500	आनंद पुंडलिक पाटील (कदम)
				546	546 पै	निजी	कृषि	0.1200	प्रथ्वीराज विश्वनाथ क्षिरसागर
				554	554 पै	निजी	कृषि	0.0142	हरीदास देवू माळी
				550	550 पै	निजी	कृषि	0.4800	गोरख जोतीराम माळी
					550 पै	सरकारी	शुष्क	0.0600	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन
				551	551 पै	निजी	कृषि	0.0648	पांडूरंग विश्वंभर चव्हाण
					551 पै	निजी	कृषि	0.0200	सोपान संतराम माळी
				552	552 पै	निजी	कृषि	0.1100	संजय मच्छींद्र बनकर
					552 पै	निजी	कृषि	0.4600	विठठल दत्तू माळी
				569	569 पै	निजी	कृषि	0.1700	मोहन विश्वनाथ मोरे
					569 पै	निजी	कृषि	0.1600	बालाजी जनार्दन मोरे
					569 पै	निजी	कृषि	0.1000	आनंद भैरु मोरे
					सड़क	सरकारी	शुष्क	0.0200	सड़क
					569 पै	निजी	कृषि	0.3100	बळीराम रामराव लव्हाळे
				559	559 पै	निजी	कृषि	0.0400	भालचंद्र विश्वनाथ माळी
				564	564 पै	निजी	कृषि	0.0037	सुरवंताबाई दत्तू माळी
				565	565 पै	निजी	कृषि	0.0600	विठठल दत्तू माळी
					565 पै	निजी	कृषि	0.0382	बळीराम रामराव लव्हाळे
					565 पै	सरकारी	शुष्क	0.0400	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन
				566	566 पै	निजी	कृषि	0.2000	1.धनराज श्रीमंत बनकर 2.युवराज श्रीमंत बनकर 3.लिंबराज श्रीमंत बनकर
					566 पै	सरकारी	शुष्क	0.0200	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन
					566 पै	निजी	कृषि	0.2200	सुरेखा हणमंत बनकर
				567	567 पै	निजी	कृषि	0.0500	शिवाजी बळीराम गायकवाड
					567 पै	निजी	कृषि	0.1200	जयसिंह जगदेवराव शिंदे
				568	568 पै	निजी	कृषि	0.1700	मच्छींद्र नरहरी माळी
				32	32 पै	निजी	कृषि	0.2100	लक्ष्मीबाई सुनिल विरकर
					32 पै	निजी	कृषि	0.2000	बाबासाहेब गोविंदराव पाटील
					32 पै	निजी	कृषि	0.0500	शिला सुरेश गोरे
					32 पै	सरकारी	शुष्क	0.0200	महाराष्ट्र शासन पाईपलाईन भूमि का अर्जन
				33	32 पै	निजी	कृषि	0.0500	मंगल ज्ञानोबा गोरे
					33 पै	सरकारी	शुष्क	0.0100	महाराष्ट्र शासन पाईपलाईन भूमि का अर्जन
					सड़क	सरकारी	शुष्क	0.0200	सड़क
				34	33 पै	निजी	कृषि	0.2600	श्रीरंग भाऊराव चौरे
					34 पै	निजी	कृषि	0.1810	1.रामचंद्र किसन जाधव 2.हिरालाल किसन जाधव 3.रुक्मीणबाई दाजी विर
					34 पै	सरकारी	शुष्क	0.0400	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन

				36	36 पै	निजी	कृषि	0.0200	काशिनाथ बलभिम जाधव व इतर				
					36 पै	निजी	कृषि	0.0200	दगडू शामराव आदटराव				
					36 पै	निजी	कृषि	0.0100	बलभिम रामराव जाधव				
					36 पै	सरकारी	शुष्क	0.3600	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन				
				37	37 पै	सरकारी	शुष्क	0.3300	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन				
				39	39 पै	सरकारी	शुष्क	0.4300	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन				
				40	40 पै	सरकारी	शुष्क	0.5263	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन				
				41	41 पै	सरकारी	शुष्क	0.5500	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन				
					41 पै	निजी	कृषि	0.0300	आच्युत दगडू भांडारकर				
					41 पै	निजी	कृषि	0.0300	ज्ञानदेव दगडू भांडारकर				
					41 पै	निजी	कृषि	0.0400	पंढरी दगडू भांडारकर				
				41	41 पै	निजी	कृषि	0.0400	विलास दगडू भांडारकर				
					539	539 पै	सरकारी	शुष्क	0.8058	महाराष्ट्र शासन			
								उपकुल	11.8947				
				3.			भंडारे	78	78 पै	सरकारी	शुष्क	0.2758	महाराष्ट्र शासन गायरान
								74	74/1पै	निजी	कृषि	0.2400	रितेश सुधाकर डावकरे
									74/1पै	निजी	कृषि	0.2775	गोविंद शंकर सुरवसे
									74/2पै	निजी	कृषि	0.1600	ललीताबाई लिंबराज वाळवे
74/2पै	निजी	कृषि	0.2400						लिंबराज सावळा वाळवे				
74/2पै	निजी	कृषि	0.1300						भूजंग सहदेव वाळवे				
73	73/2पै	निजी	कृषि					0.1600	मारुती एकनाथ सोमवंशी				
	73/2 पै	निजी	कृषि					0.4200	सुनिल सुग्रीव थिटे				
	73/1 पै	निजी	कृषि					0.0200	बाळू झुंबर सोमवंशी				
	73/1 पै	निजी	कृषि					0.0700	ब्रम्हानंद औदुंबर सोमवंशी				
69	73/1पै	निजी	कृषि					0.0800	समाधान कौशिक सोमवंशी				
	69/1पै	निजी	कृषि					0.1800	1.अजय प्रल्हाद सोमवंशी 2.विजय प्रल्हाद सोमवंशी				
	69/2पै	निजी	कृषि					0.3600	मारुती एकनाथ सोमवंशी				
	69/2पै	निजी	कृषि					0.0100	महादेव राजाराम सोमवंशी				
68	69/2पै	निजी	कृषि					0.0144	बाळासाहेब दामोदर मोरे				
	69/2 पै	सरकारी	शुष्क					0.3200	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन				
	68/1पै	निजी	कृषि					0.0100	दत्तात्रय बलदेव गिरी				
	68/1पै	निजी	कृषि					0.2400	दिलीप किसनराव सुर्यवंशी				
	68/1पै	सरकारी	शुष्क					0.2400	महाराष्ट्र शासन कॅनल भूमि का अर्जन				
67	68/2पै	निजी	कृषि					0.0100	1.दत्ता सीद्राम जाधव 2.बालाजी वामनराव सुर्यवंशी				
	68/2पै	निजी	कृषि					0.2200	1.व्यंकट राजेंद्र सुर्यवंशी 2.गोविंद राजेंद्र सुर्यवंशी				
	67/1पै	निजी	कृषि					0.1300	बाबूराव मारुती पवार				
	67/1पै	निजी	कृषि					0.1700	हरिश्चंद्र रमेश पाटील				
61	67/2पै	निजी	कृषि	0.7200	नंदकूमार वसंतराव पाटील								
	67/2 पै	निजी	कृषि	0.0144	विनोद रघूनाथ उमाटे								
	61	61 पै	निजी	कृषि	0.0642	बाबासाहेब काशिनाथ पाटील							
63	63/3पै	निजी	कृषि	0.2100	शेषेराव भिमराव सुर्यवंशी								

				63/2पै	निजी	कृषि	0.1300	केशव दादाराव झांबरे	
				63/2पै	निजी	कृषि	0.1100	दिनकर दादाराव झांबरे	
				63/1पै	निजी	कृषि	0.0600	शहाजी शेषराव सुर्यवंशी	
				63/1 पै	निजी	कृषि	0.0600	सुरेखा गणपती सुर्यवंशी	
				63/1पै	निजी	कृषि	0.0700	विनायक शेषराव सुर्यवंशी	
			54	54 पै	निजी	कृषि	0.0552	प्रदिप काशिनाथ पाटील	
			59	59 पै	निजी	कृषि	0.2500	बाळासाहेब रमेश पाटील	
				59 पै	निजी	कृषि	0.2600	सचिन रमेश पाटील	
				59 पै	निजी	कृषि	0.2600	रामचंद्र रमेश पाटील	
				59 पै	निजी	कृषि	0.2600	कालिदास रमेश पाटील	
				59 पै	निजी	कृषि	0.2500	तुळशीदास रमेश पाटील	
			60	60 पै	निजी	कृषि	0.0426	उमाकांत वसंतराव पाटील	
					60 पै	निजी	कृषि	0.0700	राहूल उमाकांत पाटील
					60 पै	निजी	कृषि	0.0700	आण्णासाहेब उमाकांत पाटील
			55	55/3पै	निजी	कृषि	0.0191	चिंतामणी निवृत्ती शिंदे	
			56	56 पै	निजी	कृषि	0.2600	प्रशांत लक्ष्मण शिंदे	
					56 पै	निजी	कृषि	0.2600	संतोष लक्ष्मण शिंदे
					56 पै	सरकारी	शुष्क	0.0498	महाराष्ट्र शासन कॅनल
			62	62पै	सरकारी	शुष्क	0.0400	कब्रस्तान	
				नदी	सरकारी	शुष्क	0.1100	तेरणा नदी	
						उपकुल	7.6730		
						कुल	29.3423		

[फा.सं.भाराराप्रा/पीआईयू/एसएलपी/एलए/23011/1/14]

राजेश गुप्ता, उपसचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2016

S.O. 2932(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2913 (E), dated 26th October 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Four Laning with Rigid Pavement), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 on the stretch of land from Km 0.000 to Km 28.000 and stretch of Tuljapur bypass from Km 0.000 to Km 11.593 (Tuljapur-Ausa Section) in Osmanabad District in the State of Maharashtra;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times Of India” and “Dainik Lokmat” both on dated the 18.11.2015; under sub-section (3) of section 3(A) of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 0.000 to Km 28.000 and stretch of Tuljapur Bypass Design Chainage Km 0.000 to Km 11.593 (Tuljapur-Ausa Section) of NH No. 361 in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Name of the District	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey Number		Type of land	Nature of land	Area in Hectare	Name of the land owner/Interested persons
				As notified in 3 (A)	As per JM & R/R				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Osmanabad	Tuljapur	Tadvala	80	80 P	Private	Agriculture	0.1900	Bajrang Dyaneshwar Thakur
					80 P	Private	Agriculture	0.0600	Ghanshyam Trimbakrao Nimbalkar
					80 P	Private	Agriculture	0.1704	1.Vishal Ramesh Vadne 2.Heerabai Navnath Suryavanshi
				79	79 P	Private	Agriculture	0.0900	Chandrakant Ananadrao Kane
					79 P	Private	Agriculture	0.1900	Limbabai Urf Gunmala Subhashrao Vibhute
					79 P	Private	Agriculture	0.2000	Yogesh Haridas Pawar
					79 P	Private	Agriculture	0.0998	Pravin Subhashrao Rochkari
					79 P	Govt	Dry	0.0400	Government Nala
					79 P	Private	Agriculture	0.2000	Kesharbai Ashok Kandle
					79 P	Private	Agriculture	0.1900	Mehmood Mohimoddin Shaikh
				76	76 P	Private	Agriculture	0.0578	1. Kiran Marutirao Kshirsagar 2. Suraj Marutirao Kshirsagar
				77	77 P	Private	Agriculture	0.2376	Jagatsingji Lokmansing Thakur
					77 P	Private	Agriculture	0.0100	1. Kiran Marutirao Kshirsagar 2. Suraj Marutirao Kshirsagar
				78	78 P	Private	Agriculture	0.0300	1.Devidas Rambhau Kshirsagar 2.Dattu Mahadev Maske 3.Suraj Marutirao Kshirsagar 4.Kiran Matirao Kshirsagar
				72	72 P	Private	Agriculture	0.0200	Jagatsingji Lokmansing Thakur
					72 P	Govt	Dry	0.0200	Government Nala
					72 P	Private	Agriculture	0.0054	Jayprakash Manikrao Gaikwad

				71	71 P	Private	Agriculture	0.0305	Bhalchandra Vishwanathappa Mankari
				75	75 P	Private	Agriculture	0.2800	Jagatsingji Lokmarsing Thakur
				74	74 P	Private	Agriculture	0.2689	Sandip Subhash Kadam
				69	69 P	Private	Agriculture	0.1500	Nagnath Gangaram Maske
					69 P	Private	Agriculture	0.2500	Ananad Chandrakant Sanas
				68	68 P	Private	Agriculture	0.0700	1. Navnath Gangaram Maske 2. Janabai Shrimant Maske 3. Seeta Limba Bhandare 4. Mangal Sandipan Kamble 5. Khandu Shrimant Maske 6. Vaishali Dilip Chandanshive 7. Anita Narayan Kamble.
									68 P
				70	70 P	Private	Agriculture	0.0253	Ananad Chandrakant Sanas
				67	67 P	Private	Agriculture	0.2600	1. Bahnudas Nivrutti Pawar 2. Mrs. Lochna Dashrath Mali 3. Mangal Manoj Kadam
				66	66 P	Private	Agriculture	0.1000	1. Sidhram Vithoba Maske 2. Sunil Vithoba Maske 3. Vithoba Masaji Maske
					66 P	Private	Agriculture	0.1000	Rama Masa Maske
					66 P	Private	Agriculture	0.1000	Lakshman Masaji Maske
				81	81 P	Private	Agriculture	0.7300	1. Satyavan Ramling Jadhav 2. Swapnil Jadhav
				82	82 P	Private	Agriculture	0.0100	Chayabai Chandrakant Rochkari
					82 P	Private	Agriculture	0.2200	Pratap Dasrao Rochkari
				83	83 P	Private	Agriculture	0.2100	Sudhakar Gajendra Sarak
				84	84 P	Private	Agriculture	0.2400	Lakshmi Babruvan Rochkare
				87	87 P	Private	Agriculture	0.2010	1. Sushabai Navnath Sarak 2. Sachin Navnath Sarak 3. Vaishali Sanju Mane
				91	91 P	Private	Agriculture	0.2200	1. Bhaskar Gajendra Sarak 2. Sudhakar Gajendra Sarak
				92	92 P	Private	Agriculture	0.1000	Arun Jyoti Gund
					92 P	Private	Agriculture	0.1000	Bharat Jyoti Gund
					92 P	Private	Agriculture	0.0900	Ambadas Jyoti Gund
					92 P	Private	Agriculture	0.0800	Devrao Jyoti Gund
					92 P	Private	Agriculture	0.0300	Bhaskar Gajendra Sarak
				94	94 P	Private	Agriculture	0.2276	Mainabai Mahadev Gund
				95	95 P	Private	Agriculture	0.1200	1. Dagdu Limbaji Patil 2. Subhash Limbaji Patil
				100	100 P	Private	Agriculture	0.0200	Dagdu Limbaji Patil

				100 P	Private	Agriculture	0.2152	Saraswati Bhagwat Nepte	
			103	103 P	Private	Agriculture	0.2700	Saraswati Bhagwat Nepte	
			104	104 P	Private	Agriculture	0.1400	1. Balaji Vinayak Bele 2. Kasturbai Vinayak Bele 3. Shalubai Prabhakar Kadam 4. Usha Suresh Chavhan	
				104 P	Private	Agriculture	0.2500	Vitthal Ramchandra Bele	
			Road	Road	Govt.	Dry	0.0500	Road	
			105	105 P	Private	Agriculture	0.1811	1. Hanmant Eknath Bele 2. Aabarao Eknath Bele 3. Ananad Eknath Bele 4. Aasha Kiran Chauhan	
				105 P	Private	Agriculture	0.0900	1. Balaji Vinayak Bele 2. Kasturbai Vinayak Bele 3. Shalubai Prabhakar Kadam 4. Usha Suresh Chavhan	
				105 P	Private	Agriculture	0.0100	Meenakshi Krushnath Bele	
			106	106 P	Private	Agriculture	0.1915	1. Vaijinath Govind Bele 2. Bhairavnath Govind Bele	
				106 P	Private	Agriculture	0.0200	Meenakshi Krushnath Bele	
			107	107 P	Private	Agriculture	0.0100	1. Ramchandra Nivrutti Bele 2. Nagnath Nivrutti Bele 3. Rukmin Sukhdev Dhanke 4. Navnath Govind Bele	
			108	108 P	Private	Agriculture	0.3108	1. Gorakh Govind Bele 2. Vaijinath Govind Bele 3. Navnath Govind Bele 4. Bhairavnath Govind Bele	
			110	110 P	Private	Agriculture	0.0500	Avinash Shahaji Dhumal	
				110 P	Private	Agriculture	0.5417	Balu Lingappa Chandanshive	
				110 P	Private	Agriculture	0.0200	Deepak Lingappa Chandanshive	
			111	111 P	Private	Agriculture	0.7000	Vishvanath Dajiba Vyavhare	
			2	2 P	Private	Agriculture	0.4900	1. Jijabai Ravsaheb Gund 2. Shankar Ravsaheb Gund	
			Road	Road	Govt.	Dry	0.0500	Road	
						Total	9.7746		
2	Osmanabad	Osmanabad	Karaj-keda	517	517 P	Private	Agriculture	0.0300	Vilas Shamrao Mane
				518	518 P	Private	Agriculture	0.1300	Rajendra Babu Ghodse
				519	519 P	Private	Agriculture	0.3200	Mahadev Shamrao Nilange
				520	520 P	Private	Agriculture	0.3400	Babru Babu Takmoge
				521	521 P	Private	Agriculture	0.3200	Rajendra Dattu Chavhan
				522	522 P	Private	Agriculture	0.0484	Dada Shankar Sontakke
					522 P	Private	Agriculture	0.0200	Shameen Mainoddin Shaikh
					522 P	Private	Agriculture	0.0300	Shriniwas Mahadev Pawar
				523	523 P	Private	Agriculture	0.0600	Vijyabai Sudhakar Takmoge
					523 P	Private	Agriculture	0.0700	Indrajeet Laxman Salunke
					523 P	Govt.	Dry	0.0300	Government Of

					Maharashtra Canal Acquisition
	523 P	Private	Agriculture	0.3200	Noormahmad Allahbaksh Shaikh
524	524 P	Private	Agriculture	0.5000	Rubababi Allahbaksh Shaikh
525	525 P	Private	Agriculture	0.3000	Bancylal Jaywant Koli
	525 P	Private	Agriculture	0.0300	Laxman Chandrappa Bondge
538	538 P	Private	Agriculture	0.3000	Mahesh Haridas Pawar
	538 P	Private	Agriculture	0.0400	Jaydevi Anil Umbare
	538 P	Private	Agriculture	0.1200	Ganpati Sadhu Rajguru
	538 P	Private	Agriculture	0.0500	Haridas Keshavrao Pawar
	538 P	Private	Agriculture	0.0700	Vitthal Nivrutti Bagal
	538 P	Private	Agriculture	0.0200	Shamalbai Indrajeet Patil
	538 P	Private	Agriculture	0.2200	Nabilala Mahamad Sayyed
	538 P	Private	Agriculture	0.0100	Devendra Nagesh Pailwan
	538 P	Private	Agriculture	0.0700	Durgadas Keshavrao Pawar
	538 P	Private	Agriculture	0.0100	Pratap Prabhakar Devkar
	538 P	Govt.	Dry	0.0700	Raod
537	537 P	Private	Agriculture	0.0100	Sanjay Baliram Gaikwad
	Road	Govt.	Dry	0.0900	Road
	537 P	Private	Agriculture	0.0800	Rajabhau Urf Vitthal Hanmant Patil
	537 P	Private	Agriculture	0.0300	Open Place
541	541 P	Private	Agriculture	0.2800	Balbhim Ramrao Jadhav
542	542 P	Private	Agriculture	0.0223	Anusayabai Kisanrao Mali
543	543 P	Private	Agriculture	0.2100	Balbhim Ramrao Jadhav
	543 P	Private	Agriculture	0.1500	Mallikarjun Karbasppa Todkari
544	544 P	Private	Agriculture	0.0600	Anusayabai Kisanrao Mali
545	545 P	Private	Agriculture	0.1500	Ananad Pundlik Patil (Kadam)
546	546 P	Private	Agriculture	0.1200	Prithviraj Vishwanath Kshirsagar
554	554 P	Private	Agriculture	0.0142	Haridas Devu Maali
550	550 P	Private	Agriculture	0.4800	Gorakh Jotiram Maali
	550 P	Govt	Dry	0.0600	Government Of Maharashtra Canal Acquisition
551	551 P	Private	Agriculture	0.0648	Pandurang Vishwambhar Chavhan
	551 P	Private	Agriculture	0.0200	Sopan Santram Maali
552	552 P	Private	Agriculture	0.1100	Sanjay Machindra Bankar
	552 P	Private	Agriculture	0.4600	Vitthal Dattu Maali
569	569 P	Private	Agriculture	0.1700	Mohan Vishwanath More
	569 P	Private	Agriculture	0.1600	Balaji Janardan More
	569 P	Private	Agriculture	0.1000	Ananad Bhairu More
	Road	Govt	Dry	0.0200	Road
	569 P	Private	Agriculture	0.3100	Baliram Ramrao Lavhale
559	559 P	Private	Agriculture	0.0400	Bhalchandra Vishwanathappa Maali
564	564 P	Private	Agriculture	0.0037	Survantabai Dattu Maali

				565	565 P	Private	Agriculture	0.0600	Vitthal Dattu Maali				
					565 P	Private	Agriculture	0.0382	Baliram Ramrao Lavhale				
					565 P	Govt	Dry	0.0400	Government Of Maharashtra Canal Acquisition				
				566	566 P	Private	Agriculture	0.2000	1.Dhanraj Shrimant Bankar 2.Yuvraj Shrimant Bankar 3.Limbraj Shrimant Bankar				
					566 P	Govt	Dry	0.0200	Government Of Maharashtra Canal Acquisition				
					566 P	Private	Agriculture	0.2200	Surekha Hanmant Bankar				
				567	567 P	Private	Agriculture	0.0500	Shivaji Baliram Gaikwad				
					567 P	Private	Agriculture	0.1200	Jaysing Jagdevrao Shide				
								568	568 P	Private	Agriculture	0.1700	Machindra Narhari Maali
								32	32 P	Private	Agriculture	0.2100	Laxmibai Sunil Veerkar
32 P	Private	Agriculture	0.2000						Babasaheb Govindrao Patil				
32 P	Private	Agriculture	0.0500						Sheela Suresh Gore				
32 P	Govt	Dry	0.0200						Government Of Maharashtra Pipeline Acquisition				
32 P	Private	Agriculture	0.0500						Mangal Dyanoba Gore				
33	33 P	Govt	Dry					0.0100	Government Of Maharashtra Pipeline Acquisition				
	Road	Govt	Dry					0.0200	Road				
	33 P	Private	Agriculture					0.2600	Shrirang Bhaurao Chaure				
34	34 P	Private	Agriculture					0.1810	1.Ramchandra Kisan Jadhav 2.Heeralal Kisan Jadhav 3.Rukminbai Daaji Veer				
	34 P	Govt	Dry					0.0400	Government Of Maharashtra Canal Acquisition				
36	36 P	Private	Agriculture					0.0200	Kashinath Balbhim Jadhav & Others				
	36 P	Private	Agriculture					0.0200	Dagdu Shamrao Adhatrao				
	36 P	Private	Agriculture					0.0100	Balbhim Ramrao Jadhav				
	36 P	Govt	Dry					0.3600	Government Of Maharashtra Canal Acquisition				
37	37 P	Govt	Dry					0.3300	Government Of Maharashtra Canal Acquisition				
39	39 P	Govt	Dry					0.4300	Government Of Maharashtra Canal Acquisition				
40	40 P	Govt	Dry					0.5263	Government Of Maharashtra Canal Acquisition				
41	41 P	Govt	Dry					0.5500	Government Of Maharashtra Canal Acquisition				
	41 P	Private	Agriculture	0.0300	Achyut Dagdu Bhandarkar								
	41 P	Private	Agriculture	0.0300	Dyandev Dagdu								

									Bhandarkar
				41 P	Private	Agriculture	0.0400		Pandhri Dagdu Bhandarkar
				41 P	Private	Agriculture	0.0400		Vilas Dagdu Bhandarkar
			539	539 P	Govt	Dry	0.8058		Government Of Maharashtra
						Total	11.8947		
3			Bhandare	78	78 P	Govt	Dry	0.2758	Gairan Govt Of Maharashtra
				74	74/1 P	Private	Agriculture	0.2400	Ritesh Sudhakar Davkare
					74/1 P	Private	Agriculture	0.2775	Govind Shankar Survase
					74/2 P	Private	Agriculture	0.1600	Lalitabai Limbraj Valve
					74/2 P	Private	Agriculture	0.2400	Limbraj Savla Valve
					74/2 P	Private	Agriculture	0.1300	Bhujang Sahdev Valve
				73	73/2 P	Private	Agriculture	0.1600	Maruti Eknath Somvanshi
					73/2 P	Private	Agriculture	0.4200	Sunil Sugriv Thite
					73/1 P	Private	Agriculture	0.0200	Balu Zhumbar Somvanshi
					73/1 P	Private	Agriculture	0.0700	Brahmanand Audumbar Somvanshi
					73/1 P	Private	Agriculture	0.0800	Samadhan Kaushik Somvanshi
				69	69/1	Private	Agriculture	0.1800	1.Ajay Pralhad Somvanshi 2.Vijay Pralhad Somvanshi
					69/2	Private	Agriculture	0.3600	Maruti Eknath Somvanshi
					69/2	Private	Agriculture	0.0100	Mahadev Rajaram Somvanshi
					69/2	Private	Agriculture	0.0144	Balasaheb Damodar More
					69/2	Govt	Dry	0.3200	Government Of Maharashtra Canal Acquisition
				68	68/1 P	Private	Agriculture	0.0100	Dattatarya Baldev Giri
					68/1 P	Private	Agriculture	0.2400	Dilip Kisanrao Somvanshi
					68/1 P	Govt	Dry	0.2400	Government Of Maharashtra Canal Acquisition
					68/2 P	Private	Agriculture	0.0100	1.Datta Sidram Jadhav 2.Balaji Vamanrao Suryavanshi
					68/2 P	Private	Agriculture	0.2200	1.Vyankat Rajendra Suryavanshi 2.Govind Rajendra Suryavanshi
				67	67/1 P	Private	Agriculture	0.1300	Baburao Maruti Pawar
					67/1 P	Private	Agriculture	0.1700	Harishchandra Ramesh Patil
					67 /2 P	Private	Agriculture	0.7200	Nandkumar Vasantryao Patil
					67/2 P	Private	Agriculture	0.0144	Vinod Raghunath Umate
				61	61 P	Private	Agriculture	0.0642	Babasaheb Kashinath Patil
				63	63/3 P	Private	Agriculture	0.2100	Shesherao Bhimrao Patil
					63/2 P	Private	Agriculture	0.1300	Keshav Dadarao Zhambre
					63/2 P	Private	Agriculture	0.1100	Dinkar Dadarao Zhambre
					63/1 P	Private	Agriculture	0.0600	Shahaji Shesherao Suryavanshi
					63/1 P	Private	Agriculture	0.0600	Surekha Ganpati

								Suryavanshi
			63/1 P	Private	Agriculture	0.0700		Vinayak Shesherao Suryavanshi
		54	54 P	Private	Agriculture	0.0552		Pradip Kashinath Patil
		59	59 P	Private	Agriculture	0.2500		Balasaheb Ramesh Patil
			59 P	Private	Agriculture	0.2600		Sachin Ramesh Patil
			59 P	Private	Agriculture	0.2600		Ramchandra Ramesh Patil
			59 P	Private	Agriculture	0.2600		Kalidas Ramesh Patil
			59 P	Private	Agriculture	0.2500		Tulshidas Ramesh Patil
		60	60 P	Private	Agriculture	0.0426		Umakant Vasanttrao Patil
			60 P	Private	Agriculture	0.0700		Rahul Umakant Patil
			60 P	Private	Agriculture	0.0700		Annasaheb Umakant Patil
		55	55/3 P	Private	Agriculture	0.0191		Chintamani Nivrutti Shinde
		56	56 P	Private	Agriculture	0.2600		Prashant Laxman Shinde
			56 P	Private	Agriculture	0.2600		Santosh Laxman Shinde
			56 P	Govt	Dry	0.0498		Government Of Maharashtra Canal Acquisition
		62	62 P	Govt	Dry	0.0400		Grave Yard
		River	River	Govt	Dry	0.1100		Terna River
					Total	7.6730		
					Grand Total	29.3423		

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/14]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.